



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 110 राँची, शुक्रवार,

14 फरवरी, 2020 (ई०)

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

10 फरवरी, 2020

संख्या-वन भूमि-19/2017- 508व0प0,-- भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम XVI, 1927) की धारा-30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल इस अधिसूचना संख्या-507 दिनांक-10.02.2020 की तिथि से अधिसूचित सुरक्षित वन (Protected Forest) में उपलब्ध सभी प्रजातियों के वृक्षों को आरक्षित (Reserved) घोषित करते हैं एवं इस अधिसूचना की तिथि से इस सुरक्षित वन (Protected Forest) में निम्नांकित कार्यों को प्रतिबिद्य (Prohibit) करते हैं:-

- (i) पत्थर का उत्खनन (quarrying) ;
- (ii) चूना अथवा चारकोल जलाना (burning)
- (iii) किसी वन उत्पाद को हटाना (removal), संग्रहण (collection) करना या उसे किसी उत्पादन क्रिया (manufacturing process) के अधीन लाना; तथा
- (iv) ऐसे वन में किसी भूमि को खेती, निर्माण, मवेशी चराई या किसी अन्य प्रयोजन से तोड़ना या सफाई करना।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ए०के० रस्तोगी,
सरकार के विशेष सचिव